smiths india limited

kuhjohl Sintrufy ymru www.kubiobl.com SINCERE PRECIOUSLY YOURS

CIN: L741100L1994PLC059341 Regd. Office: Flal No. 620, Hemkunt Chamber, 89 Nehru Place, New Deihl 110019, India Corp. Office: A-89, Sector-2, Noida (U.P.) 201301, India Phone: +91-120-4125476 Email: info@crosil.com Website: www.orosil.com

Ref. OSIL/SEC/20/2021-22

Date: September 08, 2021

To The BSE Limited, Corporate Relationship Department, 1st Floor, New Trading Ring, Rotunda Building, P J Towers, Dalal Street, Fort, Mumbai- 400 001 Email: <u>corp.relations@bseindia.com</u>

#### SECURITY CODE: 531626 ISIN NO.: INE628B01034

RE: Regulation 30 and 47 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015

#### Subject: <u>Newspaper Advertisement – 27th Annual General Meeting; Remote E-voting, Book</u> <u>Closure Period and Cut-off Date</u>

Dear Sir/ Madam,

Pursuant to Regulation 30 and 47 of the SEBI (LODR) Regulations, 2015, please find enclosed herewith the copies of the public notice by way of newspaper advertisement published today i.e. September 08, 2021, regarding 27th Annual General Meeting of the Company scheduled to be held on Wednesday, September 29, 2021, at 12:00 p.m. IST through Video Conferencing (VC) / Other Audio Visual Means (OAVM):

- Financial Express All India Edition in English language
- Jansatta Delhi Edition in Hindi Language

Please note that the dispatch of the Notice of 27<sup>th</sup> AGM along with the Annual Report for the financial year 2020-21, has been completed on September 07, 2021, to the shareholders of the Company.

You are requested to kindly take the said information on your records.

Thanking You,

Yours faithfully, For Orosil Smiths India Limited

nd A-89 Sector **Dinky Bans** (Company Se

Enclosed: Newspaper Advertisements as mentioned above

32

# FINANCIAL EXPRESS

### **OROSIL SMITHS INDIA LIMITED**

Oreal .... CIN: L74110DL1994PLC059341 Regd. Office: Flat No. 620, Hemkunt Chambers. 89. Nehru Place, New Delhi 110019 Corp. Office: A-89, Sector-2, Noida (U.P.) 201301, India Phone No.: +91-0120-4125476. Email Id.: info@orosil.com, Website: www.orosil.com

### NOTICE OF 27TH ANNUAL GENERAL MEETING, REMOTE E-VOTING INFORMATION AND BOOK CLOSURE

Notice is hereby given that:

1) The 27th Annual General Meeting ('AGM') of Orosil Smiths India Limited ("the Company") will be held on Wednesday, 29th September, 2021 at 12:00 noon (IST) through Video Conferencing ("VC") / Other Audio Visual Means ("OAVM") to transact the Ordinary and Special Business, as set out in the Notice of the AGM in compliance with the applicable provisions of the Companies Act. 2013 and Rules framed thereunder read with General Circular numbers 14/2020, 17/2020, 20/2020 and 02/ 2021 dated 8th April, 2020, 13th April, 2020, 5th May and 13th January, 2021, respectively issued by the Ministry of Corporate Affairs ("MCA Circulars") and the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 read with Circular number SEBI/HO/CFD/CMD1/ CIR/P/2020/79 dated 12th May, 2020 and SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2021/11 dated 15th January, 2021 issued by the Securities and Exchange Board of India ("SEBI Circulars"), without physical presence of the Members at a common venue.

) In terms of the MCA Circulars and SEBI Circulars, the Notice of the 27th AGM and the Annual Report for the year 2020-21 including therein the Audited Financial Statements for financial year ended 31st March, 2021, have been sent on 07th September, 2021 only by email to the Members whose email addresses are registered with the Company/ Depository participants. The requirement of sending the physical copy of the Notice of the AGM and Annual Report to the members has been dispensed with vide MCA Circulars and SEBI Circulars.

Members will be able to attend the AGM through VC/OAVM a https://www.evoting.nsdl.com by following the instructions provided in the Notes to the Notice of AGM. The members may join the meeting 30 minutes before and shall be kept open throughout the proceedings of the Meeting. The facility of participation at the AGM through VC/OAVM will be made available for 1,000 members on first come first served basis.

4) Members holding equity shares either in physical form or in dematerialized form, as on the cut off-date i.e. 22nd September, 2021, may cast their vote electronically on the Ordinary and Special Business as set out in the Notice of AGM through remote e-voting / e-voting facility of National Securities Depository Limited ('NSDL'). All members are informed that

- 1) The Ordinary and the Special Business as set out in the Notice of AGM may be transacted through voting by electronic means:
- 2) The remote e-voting shall commence on Sunday, 26th September, 2021 at 9:00 A.M. (IST);
- The remote e-voting shall end on Tuesday, 28th September, 2021 at 5:00 P.M. (IST):
- 4) The remote e-voting facility will be disabled by NSDL after the aforesaid date and time. Remote e-voting shall not be allowed beyond the said date and time and once the vote on a resolution is cast by the member, the member shall not be allowed to change it subsequently;
- The cut-off date for determining the eligibility to vote through 5) remote e-voting / e-voting during the AGM is 22nd September, 2021:
- A person whose name is recorded in the register of members or in the register of beneficial owners maintained by the depositories, as on the cut-off date i.e. 22nd September, 2021 only, shall be entitled to avail the facility of remote e-voting / e-voting during the AGM.
- Members who vote through remote e-voting would not be entitled for e-voting during the AGM.

### INDIAN OVERSEAS BANK Kalkaji Branch, F-23, Opp. Deshbandhu College, Kalkaji, New Delhi-110019, Tel. 011-26218059, 26462149

POSSESSION NOTICE (For Immovable Property) (Under section 8(1) of Security Interest (Enforcement) Rules, 2002. Where as the Undersigned being the authorized officer of the INDIAN OVERSEAS BANK, under Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act and in exercise of powers conferred under section 13(2) read with rule 3 of the Security interest (Enforcement) Rules, 2002 issued the demand notice dated 19.04.2021 calling upon the borrower Mr. Himanshu S/o Lt. Sh. Virender Kumar, Office Address: 661/7, Shop No.3, Govindpuri, Kalkaji, New Delhi-110019, and Residence Address: Pocket A-4, Flat No. 269, 2nd Floor, Konark Apartment, DDA Flats, Kalkaji Extension, New Delhi-110019 to repay the amount mentioned in the notice being Rs.8,54,981/82 (Rupees Eight Lakh Fifty Four Thousand Nine Hundred Eighty One & Paise Eighty Two) as on 19.04.2021 plus further interest and other costs/ charges etc. within 60 days from the date of receipt of the said notice(s).

The borrower/guarantor having failed to repay the amount, notice is hereby given to the borrower/guarantor and the public in general that the undersigned has taken possession of the property described herein below in exercise of powers conferred on him/ her under section 13(4) of the said act read with rule 8 of the said rules, on the 06th day of September of the year 2021.

The borrower/duarantor in particular and the public in general is hereby cautioned not to deal with the property and any dealings with the property will be subject to the charge of the Indian Overseas Bank for an amount of Rs. 8,54,981/82 as on 19.04.2021 plus further interest and other costs/ charges etc.

'The borrower's and guarantor's attention is invited to the provision of sub-section (8) of section 13 of the Act, in respect of time available, to redeem the secured assets."

### DESCRIPTION OF THE IMMOVABLE PROPERTIES

Commercial property without roof/terrace rights, situated at Shop No-4, Ground Floor of Property No-660, Gali No-7, Govindpuri, Kalkaji, New Delhi measuring 108.00 Sq. Ft. owned by Sh. Himanshu S/o Sh. Virender Kumar. Date:06.09.2021, Place: New Delhi Authorized Officer, Indian Overseas Bank

### INDIAN OVERSEAS BANK Kalkaji Branch, F-23, Opp. Deshbandhu College, Kalkaji, New Delhi-110019, Tel. 011-26218059, 26462149

POSSESSION NOTICE (For Immovable Property) (Under section 8(1) of Security Interest (Enforcement) Rules, 2002.) Where as the Undersigned being the authorized officer of the INDIAN OVERSEAS BANK, under Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act and in exercise of powers conferred under section 13(2) read with rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 issued the demand notice dated 19.04.2021 calling upon the borrower Mr. Himanshu S/o Lt. Sh. Virender Kumar, Office Address: 661/7, Shop No.3, Govindpuri, Kalkaji, New Delhi-110019, and Residence Address: Pocket A-4, Flat No. 269, 2nd Floor, Konark Apartment, DDA Flats, Kalkaji Extension, New Delhi-110019 to repay the amount mentioned in the notice being Rs.8,54,981/82 (Rupees Eight Lakh Fifty Four Thousand Nine Hundred Eighty One & Paise Eighty Two) as on 19.04.2021 plus further interest and other costs/ charges etc. within 60 days from the date of receipt of the said notice(s).

The borrower/guarantor having failed to repay the amount, notice is hereby given to the borrower/guarantor and the public in general that the undersigned has taken possession of the property described herein below in exercise of powers conferred on him/ her under section 13(4) of the said act read with rule 8 of the said rules, on the 06th day of September of the year 2021.

The borrower/guarantor in particular and the public in general is hereby cautioned not to deal with the property and any dealings with the property will be subject to the charge of the Indian Overseas Bank for an amount of Rs. 8,54,981/82 as on 19.04.2021 plus further interest and other costs/ charges etc.

'The borrower's and guarantor's attention is invited to the provision of sub-section (8) of section 13 of the Act, in respect of time available. to redeem the secured assets."

### DESCRIPTION OF THE IMMOVABLE PROPERTIES

Commercial property without roof/terrace rights, situated at Shop No-4, Ground Floor of Property No-660, Gali No-7. Govindpuri, Kalkaji, New Delhi measuring 108.00 Sq. Ft. owned by Sh. Himanshu S/o Sh. Virender Kumar.

Authorized Officer, Indian Overseas Bank



Date:06.09.2021, Place: New Delhi

Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 (54 of 2002) and In Exercise of Powers Conferred under Section 13(12) Read with Rule 3 of The Security Interest (Enforcement) Rules 2002 issued demand notices to the borrowers as detailed hereunder, calling upon the respective borrowers to repay the amount mentioned in the said notices with all costs, charges and expenses till actual date of payment within 60 days from the date of receipt of the same. The said borrower(s)/ co borrower(s) having failed to repay the amount, notice is hereby given to the borrowers/ co borrowers and the public in general that the undersigned has taken possession of the property described hereunder in exercise of powers conferred

# 🔞 UCO Bank

POSSESSION NOTICE Zonal Office: NCR Plaza, New Cantt. Road, Dehradun [Rule- 8(1)] (For Immovable Property)

Whereas, the undersigned being the Authorized Officer of the UCO Bank under the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 (Act No. 54 of 2002) and in exercise of powers conferred under section 13(12) read with Rule 8 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002, issued a demand notice calling upon the Borrower / Guarantor as given below to repay the amount mentioned below within 60 days from the receipt of the said notice. The Borrower/Guarantor having failed to repay the amount, notice is hereby given to the borrower and the public in general that the undersigned has taken possession of the properties described below in exercise of powers conferred on him/her under section 13(4) of the said Act read with Rule 8 of the said Rules on this below mentioned date. The Borrower/Guarantor in particular and the public in general is hereby cautioned not to deal with the properties, and any dealings with the property will be subject to the charge UCO Bank, Haridwar for the amount detailed below and interest together with expenses thereon. (The borrower's attention is invited to provisions of sub-section (8) of section 13 of the Act in respect of time available to redeem the secured assets)

S. No.		Description of the Immovable property	Date of Demand Notice	Outstanding as per Demand Notice	Date of possession
1.	H.No. 87 a, Jamalpur Khurd Bahadrabad, Haridwar-249402 Dated 30.08.2014 at Sub-Regist Mohan, West- Plot of Shri Atmar Colony, <b>Property No.2:</b> Equitable in east- 6 feet, west- 16.5 feet, N Sq. feet i.e. 48.09 sq. mt. situate Tehsil & Distt. Haridwar (Uttarak Page No. 105 to 120, Serial N	i.e. 51.51 square meter, situated in abadi of village jamalpur Khurd Pargana Jawalapur Tehsil & Distt. Haridwar (Uttarakhand) duly Registered with Bahi No.1. Zild No. 1884, Page No. 313 to 326, Serial No. 7052. rar Haridwar. <b>Boundaries:</b> East- House of Shri Chandra ram, North- Way 7 feet wide, South- Wall of R.K. Puram e Mortgage of residential property having land measuring orth- 54 feet & South- 38 feet. Having total area of 517.5 ed in abadi of village jamalpur Khurd Pargana Jawalapur chand) Duly Registered with Bahi No. 1, Zild No. 1986, Io. 9584, Dated 06-12-2014 at sub-registrar Haridwar. wide, west - R.K. Puram Colony, North- Land of seller,	08.06.2021	Rs. 16,00,310.30 inclusive of interest up to 31.03.2021 + future interest & expenses thereon	02.09.2021
E	Branch: Haridwar Borrower: 1. Mr. Ghanshyam S/o Sh. Ashok Sharma, 2. Mrs. Rashmal W/o Ghanshyam, All R/o House No. 1, Arya Nagar, P.O. Jwalapur, Tehsil & Distt. Haridwar-249407 page 173 to 194 Serial No. 3659 Rakesh Kumar Urf Sonu S/o Lat Haridwar in the favour of present Nagar Jwalapur Tehsil & Distt. H	Equitable mortgage of Residential building in the name of Mr. Ghanyshyam Plot No. 88/133, with dimentions East 33 ft. West 47.4 ft. North 19.4 ft., South 19.4ft, having total area 640 sq.ft. (i.e. 59.479 sq. mtr.).	08.06.2021	Rs. 6,54,203.37 inclusive of interest up to 31.03.2021 + future interest & expenses thereon	02.09.2021
8.	Branch: Haridwar Borrower: 1. Mr. Rahul Kaushik S/o Sh. Ashok Sharma, 2. Mr. Ashok Sharma S/o Sh. Munna Lal Sharma, 34, Gali No. A-5, Tihri Visthapit Colony, P.O Jwalapur, Tehsil & Distt. Haridwar-249407 to 60. Deed No. 3175 dated 16.04	Equitable mortgage of Residential Building in the name of Mr. Ashok Sharma, Plot No34, Khasra No. 452/12 with dimentions East- 42 ft. West-42 ft. North- 27.5 ft. South- 27.5 Ft. having total area 1155 sq. ft. (107.34 sq.mtr.) covered area 1000 sq.ft./93.93 sq.mtr. Gali No. A-5, Shivalik Nagar, Tehri Visthapit area Ranipur, Pargana Jwalapur, Tehsil & Distt. Haridwar duly registered sub-registrar Haridwar with Bahi No.1, Zild No. 1470, Page No. 41 4.2010. <b>Boundaries</b> : East- House of Smt. Mukta Sharma North- Road 20ft wide, South- Property of Sh. Monu Tyagi		Rs. 14,43,637.90 inclusive of interest up to 31.03.2021 + future interest & expenses thereon	02.09.202
	Branch: Haridwar Borrower: M/s Tatsat Here Ram Enterprises, 75 Bhikkampur, Jeetpur, Lakshar Road, Haridwar. Partners: 1. Mr. Amit Bhardwaj S/o Sh. Sushil Bhardwaj, 2. Mr. Anuj Bhardwaj S/o Sh. Sushil Bhardwaj, R/o 1&2. Vill.	Property No.1: A residential property having khasra no. 415/2, measuring east-75 ft, West-75 ft, North- 32.5 ft,& South-32.5 ft, having total an area 2437.5 sq. feet i.e. 226.6875 sq.mt., registered on Bahi No. 01 Zild No.2995 and page no. 291 to 310 Serial No. 217 dt. 09.01.2019 registered in sub-registrar Laksar Distt.Haridwar. Boundaries: East- Land of Amit Bhardwaj, West- Way 12 meter wide, North- Land of Pooja Bhardwaj & South-	21.06.2021	Rs. 1,97,70,565.13 inclusive of interest up to 31.03.2021 + future interest & expenses thereon	02.09.2021



**b.** The manner of voting remotely ("remote e-voting") by members holding shares in

agar

the members eligible for e-voting facility has been fixed as Wednesday, September 22, 2021. A person, whose name is recorded in the register of members or in the register of beneficial owners maintained by the depositories as on the cut-off date only shall be entitled to avail the facility of

The Members are requested to note that remote e-voting process shall commence on Sunday. September 26, 2021 at 9:00 a.m. and will remain open upto Tuesday, September 28, 2021 till 5:00 p.m. Thereafter, the remote e-voting module shall be disabled by NSDL. Once the vote on a resolution is cast by a Member, he / she / it shall not be allowed to change it subsequently. The Members who have not cast their vote through remote e-voting can exercise their voting rights electronically during AGM. The Members who have cast their votes by remote e-voting prior to the

The Company has appointed M/s Mehak Gupta & amp; Associates (Membership No. FCS 10703, CP No. 15013), Practising Company Secretary, as the scrutinizer to scrutinize the e-voting process in a

The detailed procedure/ instructions for remote e-voting, attending AGM and e-voting during AGM

The relevant documents pertaining to the items of business to be transacted at the 29th AGM are available for inspection through electronic mode. Members are requested to write to the company or

NSDL:www.evoting.nsdl.comor the Member may refer Frequently Asked Questions (FAQs) for

financiales, epage, in			
<ul> <li>Indigita Albatiya Rodu, Agran Pada, Agra 202010.</li> <li>Loan Account Numbers: PR00281609 &amp; PR00373025 Total Loan Amount Sanctioned: Rs.16,50,000/- (Rupees Sixteen Lakh and Fifty Thousand Only).</li> <li>Mr. Atar Singh S/o. Mr. Vihari Lal &amp; Mr. Kailash Chand S/o. Mr. Atar Singh &amp; Mrs. Shakuntla Devi W/o. Mr. Atar Singh All At: 12/4 Q, Hanuman Nagar, Yamuna Bridge, Agra282004. Also All At: 21 Gata No. 2475 Ram Bagh, Shiv Priya Complex Agra - 282006. Also At: Shop No -21, Basement, situated at Shiv Priya Complex, Trans Yamuna Colony-Agra - 282006.</li> <li>Loan Account Number: PR00440910 Loan Account Number: PR00440910</li> <li>Loan Amount Sanctioned: Rs.21,80,000/- (Rupees Twenty One Lakh and Eighty Thousand Only).</li> <li>For any query please contact Mr. Somesh Sundriyal (+91 9910563402), Mr. Vivek Kanaujia (+91 9205177091) &amp; Mr. Prashant Gautam (+91 9205177091)</li> <li>Mr. Prashant Gautam (+91 9205177091)</li> <li>Mr. Prashant Gautam (+91 9205177091)</li> </ul>	2021 with       Image: Constraint of the second state of the secon	vertisem : 0120-6	ent Booking 651214
<ul> <li>5. Mr. Amin Khan S/o Mr. Najir Khan &amp; Mrs. Jaitun Begum W/o Mr. Najir Khan &amp; Mr. Shokin Khan S/o Mr. Najir Khan &amp; Mr. Shokin Khan S/o Mr. Najir Khan All At: 26, Ajam Para, Agra-282010. All Also At: KH-232, Property No. 20, Nagla Albatiya Road, Azam Pada, Agra-282010.</li> <li>Froperty Bearing Plot No. 20, 1)Phoenix Trust FY 19-10 Municipal Corporation No. 4-2005.03.2021 A/AP/20, Khasra No-232, 3) 03.09.2021 Measuring Area 83.6 Sq.Mtr. 4)Rs.25,86,207/- (Rupees Twenty situated at Azam Para, Lohamandi Eighty Six Thousand Two Hundred</li> </ul>	Sanjeev Chandra         Place: New Delhi         Date: 14.08.2021         DIN: 00095561         Sive Lakh	acting on an advertisement in	Place: Kundli, (Haryana) (Company Secretary & Compliance Officer) Date : 7th September, 2021 Membership No. : A50965
<ul> <li>4. Mr. Ajay Kumar S/o Mr. Sovran Singh &amp; Mr. Rakesh Kumar S/o Mr. Sovran Singh &amp; Mr. Sovran Singh S/o Mr. Shanker Lal &amp; Mrs. Rinki Kumari W/o Mr. Rakesh Kumar All At: Khwaspura, Jagner Road, Near Durga Temple, Agra- 282001 All Also At: Khwaspura, Khasra No. 112, Mauza Kachipura, Agra-282001. Mr. Ajay Kumar Also At: Kheria Mod, Xing Crossing, Agra-282001. Loan Account Number: PR00390561 Total Loan Amount Sanctioned: Rs.23, 00,000/- (Rupees Twenty Three Lakhs Only).</li> <li>4. Mr. Ajay Kumar S/o Mr. Sovran Singh &amp; Mr. Sovran Singh &amp; Mr. Shanker Lal &amp; Mrs. Rinki Kumari W/o Mr. Rakesh Kumar All At: Khwaspura, Jagner Road, Near Durga Temple, Agra- 282001 All Also At: Khwaspura, Khasra No. 112, Mauza Kachipura, Agra-282001. Mr. Ajay Kumar Also At: Kheria Mod, Xing Crossing, Agra-282001. Loan Account Number: PR00390561 Twenty Three Lakhs Only).</li> <li>4. Mrs. Ajay Kumar S/o Shri Sovran Singh &amp; Mr. Rakesh Kumar S/o Shri Sovran Singh &amp; Mr.</li> </ul>	Hundred in particular, instructions for joining the AGM, manner of casting vote through remote e-voting or through e-voting during the AGM. For and behalf of the Board Maxplus Logistics Limited tin full.	advertising in its newspapers or Publications. We therefore recommend that readers make necessary inquiries	Since the 29 th AGM will be held pursuant to the aforesaid Circulars through VC / OAVM, physical attendance of Members has been dispensed with. Accordingly, the facility for appointment of proxies by the Members will not be available. Notice is also hereby given that pursuant to the provisions of Section 91 of the Act and Regulation 42 of the Listing Regulations, the Register of Members and the Share Transfer Books of the Company will remain closed from Thursday, September 23, 2021 to Wednesday, September 29, 2021 (both days inclusive) for the purpose of 29th AGM. By order of the Board of Directors For Jagan Lamps Limited Sdd.
<ul> <li>3. Mr. Naresh Kumar S/o. Mr. Amar Singh &amp; Mrs. Vimla Devi W/o. Mr. Amar Singh &amp; Mr. Umesh Singh S/o. Mr. Amar Singh &amp; Mr. Pitm Singh S/o. Mr. Amar Singh All At: Piot No. 75, Geeta Puram Colony, Nai Abati Gainda Nagar, Mauza-Bodla, Near Bombay Bazar, Bodla Agra- 282007. All Also At: Bombay Bazar Agra, Near Bagichi, Sikandra Road, Agra-282007. Loan Account Number: PR00385905 Total Loan Amount Sanctioned: Rs.33,39,000/-(Rupees Thirty Three Lakh and Thirty Nine Thousand Only).</li> <li>3. Mr. Naresh Kumar S/o. Mr. Amar Singh &amp; Mrs. Vimla Devi W/o. Shri Amar Singh of Plot No.75 (Property Bearing of Plot No.74, West-Plot No 9 (Property Bearing of Plot No.75 (Property Bearing of Plot</li></ul>	<ul> <li>a) Physical holding: please send scan copy of a signed request letter mentioning your Folio No., Name of shareholder, scanned copy of the share certificate (front and back), PAN (self-attested scanned copy of PAN card), AADHAR (self-attested scanned copy of Aadhar Card), by email to the Company's email address at cs.mcstitch@gmail.com or to the email id of RCMC Share Registry Pvt Ltd- Registrar &amp; Share Transfer Agent (RTA) of the Company at rdua@rcmcdelhi.com.</li> <li>b) Demat holding: Please contact your Depository Participant (DP) and register your e-mail address in your demat account, as per the process advised by your DP.</li> </ul>	Express (P) Limited cannot be held responsible for such contents, nor for any loss or damage incurred as a result of transactions with companies,	his / her / its relevant particulars i.e. DP ID& amp; Client ID / Folio No. to obtain User Id and Password for e voting. If shareholder is individual shareholder and hold shares in demat mode he/she can generate password as explain in e-voting instruction. Shareholder may note that the Board of Directors in their meeting held on 15.06.2021 have recommended a Final Dividend of Rs. 1/- per equity shares. The record date for the purpose of fina dividend for financial year 2020-21 is 22.09.2021. the final dividend, once approved by the shareholders in the ensuing annual general meeting will be paid on before 28.10.2021. The manner in which the shareholders who wish to register their bank mandates for receiving their dividends are detailed in the notice of AGM.
Only).S/o. Sri Latoori Singh.with costs and charges until payment in2.Mr. Laxman Singh S/o Mr. Ram Charan Singh Das & Mrs. Meera Devi W/o Mr. Laxman Singh Both At: 93/8, Avas Vikas Colony S-8, Kitham, Agra. Also At: Residential House No.93, Sector-8, Pandit Deen Dayal Upadhyay Puram, Sikandra Yojna, Agra. Mr. Laxman Singh Also At: 42, 135 Mathura Road, Billoch Pura Agra, Opp. Cibarty Shoe, Agra-282002. Loan Account Numbers: PR00383055 & PR00398050 Loan Account Numbers: PR00383055 & PR00398050 Lighteen Lakh and Forty Thousand Only).All the Piece or parcel Residential House no. 93, Sec-8, Pandit Deen Dayal Upadhyay Puram, Sikandra Yojna, Agra. Mr. Laxman North - House No. 94/8, East - House No. 83 & 84, South- House No. 92/8, West - 6 Mtr wide road.1) Phoenix Trust FY 19-10 93, 03.09.2021 Heasurement of House 41.31 Sq. Hundred and Eighty One Or 84, South- House No. 92/8, West - 6 Mtr wide road.1) Phoenix Trust FY 19-10 93, 03.09.2021 Heasurement of House No. 92/8, West - 6 Mtr wide road.Name of the Mortgagor: Sri Laxman Singh Bighteen Lakh and Forty Thousand Only).Name of the Mortgagor: Sri Laxman Singh.1) Phoenix Trust FY 19-10 93, Sec-8, Pandit Deen Dayal Puram, Sikandra Yojna, Agra. Total Area Hundred and Eighty One Or 84, South- House No. 92/8, West - 6 Mtr Wide road.	<ul> <li>dematerialised mode, physical mode and for members who have not registered their e-mail addresses will be provided in the Notice of the AGM.</li> <li>c. The facility for e-voting will also be made available at AGM and Members attending the AGM who have not cast their vote(s) by remote e-voting will be able to vote at the AGM.</li> <li>d. The login credentials for casting votes through e-voting shall be made available to members through email.</li> <li>e. The same login credential may also be used for attending the AGM through VC/OAVM.</li> <li>In case you have not registered your e-mail address with the Company/ Depository, please</li> </ul>	<b>"INPORTANT"</b> Whilst care is taken prior to acceptance of advertising copy, it is not possible to verify	Shareholders and e-voting user manual for Shareholders, available at the download section of <b>www.evoting.nsdl.com</b> or call on toll free no.: 1800 1020 990 and 1800 22 44 30 or send a request at <b>evoting@nsdl.co.in</b> . Any query or grievance in relation to e-voting may be addressed to Mr. Sandeep Yadav, Company Secretary, e-mail address: <b>cs@jaganlamps.com</b> , Address: Narela Piao Manihari Road,Kundl 131028, Haryana, Contact No.: 8814805077. Any person who becomes a Member after sending the Notice and Annual Report through e-mail but who holds shares as on cut-off date can attend the AGM through VC / OAVM. Such Member can exercise his voting right through remote e-voting or e-voting during AGM and send a requisition for a copy of the Annual Report and Notice convening the AGM through e-mail communication to RTA at <b>investor@masserv.com</b> with a copy marked to the Company at <b>cs@jaganlamps.com</b> along with
Loan Amount Sanctioned: Rs.12, 00,000- (Rupees Twelve Lakins Single And Single Circle Interest applicable from 04.05.		Date : 07.09.2021 (Director	NSDL:www.evoting.nsdl.comor the Member may refer Frequently Asked Questions (FAUs) for







New Delhi



## 18 जनसत्ता, 8 सितंबर, 2021

जी-20 के स्वास्थ्य मंत्री कोरोनारोधी टीके को लेकर विश्वास बढ़ाने पर सहमत

लंदन, ७ सितंबर (भाषा)।

भारत समेत जी-20 देशों के स्वास्थ्य मंत्री रोम में स्वास्थ्य घोषणापत्र में भविष्य की स्वास्थ्य सरक्षा में सधार करने, टीके को लेकर विश्वास बढ़ाने और रोगाणुरोधी प्रतिरोध (एएमआर) से निपटने के लिए वैश्विक कार्रवाई को लेकर सहमत हुए। इस सप्ताह इटली में जी-20 के स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक में कोरोना महामारी को समाप्त करने और दुनियाभर में स्वास्थ्य क्षेत्र की बेहतरी का समर्थन करने के लिए मजबूत सहयोग व तालमेल पर सहमति बनी। जी-20 के सदस्यों में भारत, ब्रिटेन, अमेरिका, अर्जेंटीना, आस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, इंडोनेशिया, इटली, कोरिया गणराज्य, जापान. मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, तुर्की और युरोपीय संघ शामिल हैं।

अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने कहा उड़ानों के लिए तालिबान के साथ काम कर रहा है अमेरिका

## दोहा, 7 सितंबर (एपी)।

अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने कहा कि उनका विभाग काबुल से अतिरिक्त चार्टर उड़ानों की व्यवस्था के लिए तालिबान के साथ काम कर रहा है ताकि वे लोग अफगानिस्तान से निकल सकें जो अमेरिका की सैन्य वापसी के बाद देश छोड़ना चाह रहे हैं।

ब्लिंकन मंगलवार को कतर के शीर्ष राजनयिकों और रक्षा अधिकारियों के साथ संयुक्त संवाददाता सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान की राजधानी से अतिरिक्त चार्टर उडानों के बंदोबस्त के लिए अमेरिका पिछले कुछ समय से तालिबान के साथ संपर्क में है। विदेश मंत्री ने कहा कि तालिबान ने उन सभी लोगों को सुरक्षित निकासी का आश्वासन दिया है जो

# वैध वीजा व पासपोर्ट रखने वाले हो सकते हैं सवार : तालिबान

## काबुल, ७ सितंबर (एपी)।

अफगानिस्तान के उत्तरी शहर मजार-ए-शरीफ में फंसे उन अफगानों को निकाली के लिए परिचालित होने वाली चार्डड उड़ानों में सवार होने की अनुमति दी जाएगी जिनके पास वैध वीजा और पासपोर्ट है। शहर के अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर तैनात तालिबान के पदाधिकारी मौलवी हफीज मंसूर ने कहा कि

उचित यात्रा दस्तावेज के साथ अफगानिस्तान से निकलना चाह रहे हैं। अफगानिस्तान में अब भी करीब 100 अमेरिकी नागरिक जहां-तहां हैं जो वहां से निकलना चाहते हैं।

विदेश विभाग ने पहले बताया था कि लगभग 100 से 200 लोग ऐसे हो सकते हैं।

कर रहे अधिकतर अफगानों के पास न तो वीजा है और न ही पासपोर्ट। तालिबान ने कहा कि वह उन्हीं अफगानों को देश छोडने की अनुमति देगा जिनके पास पासपोर्ट और वैध वीजा है। मंसूर ने यह नहीं बताया कि वैध दस्तावेज रखने वाले और बिना दस्तावेज के कितने अफगान हैं जो देश छोड़ने के लिए निकासी उडानों का इंतजार कर रहे हैं।

चार निकासा उड़ाना में सवार होने का इतजार

दुनिया

ब्लिंकन और अमेरिका के रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन कतर में हैं। वे 15 अगस्त को तालिबान के काबुल पर कब्जा करने के बाद अफगानिस्तान से हजारों लोगों को निकालने में मदद करने के लिए खाड़ी अरब देश का शुक्रिया अदा करने यहां आए हैं।



म्यांमा में सैन्य शासन के खिलाफ

राष्ट्रव्यापी विद्रोह का आह्वान

फेसबुक पर संदेश देते भूमिगत राष्ट्रीय एका सरकार के कार्यकारी प्रमुख दुवा लाशि।

## बैंकाक, ७ सितंबर (एपी)।

म्यांमा में सैन्य शासन के खिलाफ प्रतिरोध का समन्वय करने वाले भूमिगत राष्ट्रीय एका सरकार ने मंगलवार को राष्ट्रव्यापी विद्रोह का आह्वान किया। भूमिगत सरकार के कार्यकारी प्रमुख दुवा लाशि ला ने पूरे देश के प्रत्येक गांव, करबे और शहर में सैन्य

सरकार के खिलाफ एक ही समय में विद्रोह करने की अपील की है। साथ ही उन्होंने तथाकथित आपातकाल की भी घोषणा की है। उनके भाषण की वीडियो फेसबुक पर पोस्ट की गई है। म्यांमा की सेना ने फरवरी में आंग सान सू की की निर्वाचित सरकार का तख्तापलट कर सत्ता अपने हाथ में ले ली। तब से देश में अशांति फैली हुई है।



(एलओडीआर) विनियमन] के अनुपालन में विडियो कान्फ्रेंसिंग (''वीसी'')/ अन्य ऑडियो विजुअल माध्यमों (''ओएवीएम'') द्वारा गुरुवार, 30 सितम्बर, 2021 को 12.30 अप. में आयोजित की जायेगी जिसमें 47वीं एजीएम की सूचना में निर्दिष्ट व्यवसायों को निष्पादित किया जायेगा। 47वीं एजीएम की सुचना तथा 31 मार्च, 2021 को समाप्त वित्त वर्ष के लिये कम्पनी का वार्षिक रिपोर्ट 7 सितम्बर, 2021 को ईमेल द्वारा ऐसे सभी सदस्यों को भेज दी गई है जिनके ईमेल पते कम्पनी अथवा रजिस्ट्रार तथा शेयर अंतरण एजेन्ट अथवा एमसीए सर्क्युलर्स तथा सेबी सर्क्युलर के अनुसार संबंधित डिपॉजिटरी पार्टिसिपैन्ट्स (''डीपी'') के पास पंजीकृत हैं तथा वह कम्पनी की वेबसाईट (www.ramasteel.com) पर भी उपलब्ध है। कम्पनी (प्रबंध तथा प्रशासन) नियमावली, 2014 के नियम 10 तथा सेबी (एलओडीआर) विनियमन, 2015 के विनियमन 42 के साथ पठित कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 91 के अनुपालन में सदस्यों के रजिस्टर तथा कम्पनी की शेयर अंतरण पुस्तकें 23 सितम्बर, 2021 से 30 सितम्बर, 2021 (दोनों दिवस सहित) तक 47वीं एजीएम के उद्देश्य से बंद रहेंगे। कम्पनी (प्रबंध तथा प्रशासन) नियमावली, 2014, सेबी (एलओडीआर) विनियमन के विनियमन 44, इंस्टीच्यूट ऑफ कम्पनी सेक्रेट्रीज ऑफ इंडिया द्वारा जारी सचिवालयी मानक-2 तथा एमसीए सर्क्युलर्स के साथ पठित अधिनियम की धारा 108 के अनुपालन में कम्पनी ने 47वीं एजीएम की सूचना में निर्दिष्ट सभी प्रस्तावों पर रिमोट ई-वोटिंग (एजीएम से पूर्व) तथा ई-वोटिंग (एजीएम के दौरान) द्वारा इलेक्ट्रॉनिक रूप से मतदान की सुविधा सभी सदस्यों को उपलब्ध कराई है। रिमोट ई-वोटिंग सोमवार, 27 सितम्बर, 2021 (9.00 बजे पूर्वा.) में शुरू होगी तथा बुधवार, 29 सितम्बर, 2021 (5.00 बजे अप.) में बंद होगी। इस अवधि के दौरान सदस्य इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना मतदान कर सकते हैं। उसके बाद एनएसडीएल द्वारा मतदान के लिये रिमोट ई-वोटिंग पद्धति निष्क्रिय कर दी जायेगी। जिन सदस्यों ने एजीएम से पूर्व रिमोट ई-वोटिंग द्वारा अपना मतदान कर दिये हों वे भी वीसी/ ओएवीएम सुविधा द्वारा एजीएम में शामिल हो सकते हैं लेकिन एजीएम के दौरान उपलब्ध ई–वोटिंग सुविधा द्वारा पुनः मतदान के लिये अधिकृत नहीं होंगे। सदस्यों द्वारा किसी प्रस्ताव पर एक बार मतदान कर देने के बाद सदस्यों को बाद में उसमें परिवर्तन की अनुमति नहीं दी जायेगी। रिमोट ई-वोटिंग, एजीएम में शामिल होने तथा एजीएम के दौरान ई-वोटिंग के विस्तृत निर्देश 47वीं एजीएम की सूचना में दी गई है। स्वच्छ तथा पारदर्शी तरीके से सम्पूर्ण ई-वोटिंग प्रक्रिया का पर्यवेक्षण करने के लिये कम्पनी द्वारा मै. अरुण कुमार गुप्ता एंड एसोसिएट्स, कम्पनी सेक्रेट्रीज, नई दिल्ली को पर्यवेक्षक नियुक्ति किया गया है। जिस व्यक्ति का नाम कट-ऑफ तिथि अर्थात् 23 सितम्बर, 2021 को सदस्यों के रजिस्टर अथवा डिपॉजिटरीज द्वारा प्रबंधित लाभ भोगी स्वामियों के रजिस्टर में दर्ज होगा केवल वे हीं रिमोट ई-वोटिंग के साथ एजीएम के दौरान ई-वोटिंग की सुविधा प्राप्त करने के लिये अधिकृत होंगे। यदि कोई व्यक्ति एजीएम की सूचना के प्रेषण के बाद किन्तु कट–ऑफ तिथि अर्थातु 23 सितम्बर, 2021 से पूर्व कम्पनी का सदस्य बने हो, वे लॉगिन आईडी तथा पास्वर्ड प्राप्त करने के लिये evoting@nsdl.co.in पर ई-मेल करें। पुनः यदि सदस्य एनएसडीएल की रिमोट ई-वोटिंग प्लेटफार्म पर पहले से ही पंजीकृत हैं तो रिमोट ई-वोटिंग द्वारा अपना मतदान करने के लिये वे अपने वर्तमान यूजर आईडी तथा पास्वर्ड का प्रयोग कर सकते हैं। सदस्यों से अनुरोध है कि एजीएम सूचना में मुद्रित ई-वोटिंग के निर्देशों को सावधानी-पूर्वक पढ़ लें। किसी प्रकार की पूछताछ के लिये आप www.evoting.nsdl.com के डाउनलोड खंड में उपलब्ध शेयरधारकों के लिये Frequently Asked Questions (FAQ's) तथा शेयरधारकों को लिये रिमोट ई-वोटिंग यूजर मैन्युअल देखें अथवा evoting@nsdl.co.in पर ईमेल करें अथवा टोल फ्री नं.: 1800-222-990 पर सम्पर्क करें।

पीडिता और उसके दल के सदस्य परेड के दौरान आरोपियों की पहचान नहीं कर पाए, जिसके चलते संदिग्धों को रिहा किया गया। पंजाब सरकार के अधिकारी ने मंगलवार को यह जानकारी दी। यह घटना 14 अगस्त को हुई थी, जब सैकड़ों युवा लाहौर में मीनार-ए-पाकिस्तान के पास आजादी चौक पर पाकिस्तान का स्वतंत्रता दिवस मना रहे थे। इस घटना से देशव्यापी आक्रोश फैल गया था और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इसकी निंदा की गई थी। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में सैकड़ों युवकों को लड़की को हवा में उछालते, घसीटते, कपड़े फाड़ते और उसके साथ छेड़छाड़ करते देखा जा सकता है। सभी दलों के राजनेताओं और नागरिक समाज के सदस्यों ने इस घटना की कडी निंदा की है। उनमें

से कई ने इसे यौन आतंकवाद' हा है। लाहौर पुलिस ने लडकी और उसके साथियों पर हमला करने के आरोप में 400 अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया था और

पंजाब सरकार के अधिकारी ने मंगलवार को कहा, 'बीते कुछ दिन में कैंप जेल लाहौर में न्यायिक मजिस्ट्रेट की निगरानी में, गिरफ्तार किए गए 161 गिरफ्तार संदिग्धों की पहचान परेड आयोजित की गई थी। लड़की और उसकी टीम के सदस्य केवल छह संदिग्धों की पहचान कर सके जिसके बाद पुलिस ने मजिस्ट्रेट को बताया कि इस मामले में अब 155 संदिग्धों की जरूरत नहीं है और बाद में उन्हें जेल से रिहा कर दिया गया। उन्होंने कहा कि लडकी द्वारा पहचाने गए छह संदिग्धों को नौ सितंबर तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। कुछ संदिग्धों ने अदालत के समक्ष आरोप लगाया कि लड़की ने खुद उन्हें वीडियो बनाने के लिए मीनार-ए-पाकिस्तान में आमंत्रित किया और जो कुछ उसके साथ हुआ, उसके लिए वह जिम्मेदार थी।

हस्ता./ स्थानः नई दिल्ली (नरेश कुमार बंसल) तिथि: 07.08.2021 अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक

#### फिनिक्स आर्क प्राइवेट लिमिटेड कब्जा सूचना पंजीकृत कार्यालयः 5वाँ तल, दानी कॉर्पोरेट पार्क, 158, सी.एस.टी. रोड, कालिना, सांताक्रुज (ई) मुंबई —400098

रामा स्टील ट्यूब्स लिमिटेड के लिये

जबकि, मैंसर्स फिनिक्स आर्क प्राइवेट लिमिटेड (ट्रस्ट वि. व. 19–10) के अधिकृत अधिकारी की ओर से वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकर और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के नियम 13(2) के सपठित प्रतिभूति हित (प्रवर्तन), नियमावली 2002 के नियम 3 के तहत दिए गेए अधिकारों का प्रयोग करते हुए एक माँग नोटिस जारी करके ऋणी, सहऋणी / गारंटर की उक्त नोटिस मिलने की तारीख से 60 दिनों के भीतर अदा करने को कहा गया था। ऋणी, सहऋणी 🖊 गारंटर द्वारा उक्त राशि की अदायगी न करने के कारण ऋणी, सहऋणी / गारंटर और जन साधारण क यह सूचना दी जाती है कि अद्योहस्ताक्षरी ने उक्त अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (4), सुरक्षा हित प्रवर्तन नियम 2002 के नियम 8 के साथ पठित नियमों के अन्तर्गत दिये गये अधिकारों का उपयोग करते हुए निम्नलिखित संपत्ति का कब्जा साथ में उल्लिखित तिथि को ले लिया है। ऋणी/गारंटर को विशेष रूप से एवं जन साधारण को इस नोटिस के द्वारा चेतावनी दी जाती है कि वे निम्नलिखित संपत्ति से सम्बन्धित कोई लेन देन न करें तथा संपतित में किया गया कोई भी लेन–देन मैसर्स फिनिक्स आर्क प्राइवेट लिमिटेड (ट्रस्ट वि. व. 19–10) व इस से आगे के ब्याज, लागत, व्यय और अन्य शुल्कों के अधीन होगा। ऋणी, सहऋणी / गारंटर, बंधक संपत्तियांा, ट्रस्ट का नाम, बकाया देय राशि, धारा 13 (2) के तहत भेजे गए मांग सूचना और दावा की गई गयी राशि विवरण निम्नानसार हैं

गयी राशि विवरण निम्नानुसार हैं:	<ol> <li>सदस्यगण जिन्होंने रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से अपना बोट दे</li> </ol>	जरूर मजबुत होगी, ऐसे में अफगानिस्तान के अ	शांत साथ उनका समझौता	हो गया और वह अफ
ऋणी का नाम और पता,     प्रतिभूतियों का विवरण     1. ट्रस्ट का नाम, 2. माँग सूचना की तारीख,       सं.     सह—ऋणी, ऋण खाता संख्या, ऋण राशि     संपति जिसमें, मुकान संख्या     3. कब्जे की तारिख, 4. देय भुगतान की राशि	<ul> <li>7) सदस्यगण जिन्हान (स्माट इन्या)टन के माध्यन स अपना पाट द दिया है, वे एजीएम के दौरान ई-वोटिंग के पात्र नहीं होंगे।</li> <li>8) रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से अपना वोट देने वाला सदस्य भी</li> </ul>	सिहासन के लिए फिलहाल किसी राष्ट्रीय विकल्प के उभ	भरने वापस लौट आए हिक	मतयार ने कहा है कि वा
1. श्री मुलायम सिंह सिरसा पुत्र श्री. लतूरी सिंह एवं सौ. 11/44 मापक्षेत्र 27.60 1) फिनिक्स ट्रस्ट वित्तीय वर्ष 19−10 भगवान देवी पत्नी श्री मुलायम सिंह सिरसा, दोनों का पताः वर्गगज, रामबाग, नई आबादी 2) 03.03.2021	एजीएन में भाग ले सकता है लेकिन उसे बैठक में दोबारा वोट देने	की संभावना नहीं है।		के साथ काम करने के लि
हाउस नं. 11 / 44 बी, रामबाग, नई आबादी, हाथरस रोड, मौजा नारायच तहसील 3) 03.09.2021 आगरा– 282006, मुलायम सिंह सिरसा पुत्र श्री. लतूरी सिंह <b>यहाँ</b> एत्मादुर आगरा में स्थित 4) 17,76,936 / – (रू. सत्रह लाख छिहत्तर हजार	की अनुमति नहीं दी जाएगी।	तालिबान को सबसे अधिक चुनौती इस्लामिक र		हम चाहते हैं कि सरकार
भीः 11/41 इ/1 एडी सीता नगर, नुन्हाई लिंक रोड, रामबाग, यार्ड। नौ सौ छत्तीस रुपये) देय और 03.03.2021 से	9) ऐसा व्यक्ति जो बैठक की सूचना मेजने के बाद कंपनी का सदस्य बनता है और कट-ऑफ तिथि अर्थात् 22 सितम्बर, 2021 को	खुरासान (आइएस-के) से मिल सकृती है। 26 अगुस्त		ले। इसके अलावा हमारी
आगरा–282006। ऋण खाता संख्याः PR00289343 सिंह सिरसा पुत्र. श्री लतूरी तक कि भुगतान पूर्ण नहीं हो जाता।	शेयर धारण करता है, वह ई—मेल evoling@nsdl.co.in पर अनुरोध	हामिद करजई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के बाहर हमले व	कर− नहीं है।	
स्वीकृत ऋण राशिः रु.12,00,000 / – (रुपये बारह लाख मात्र)   सिंह।	भेजकर अपना यूजर आईडी एवं पासवर्ड प्राप्त कर सकता है। तथापि, ऐसा व्यक्ति जो एनएसडीएल के साथ ई—वोटिंग के लिए			
2. श्री लक्ष्मण सिंह पुत्र श्री. राम चरण सिंह दास एवं श्रीमती संपत्ति के सभी भाग व अंश जिसमें, आवासीय 1) फिनिक्स ट्रस्ट वित्तीय वर्ष 19–10 मीरा देवी पत्नी श्री लक्ष्मण सिंह दोनों यहाँ पर: 93 ⁄ 8, मकान नं. 93, सेक्टर–8, पंडित दीन दयाल 2) 05.03.2021	पहले से पंजीकृत है, वह बोट देने के लिए अपने वर्तमान यूजर			
आवास विकास कॉलोनी एस-8, किथम, आगरा। <b>इसके</b> उपाध्याय पुरम, सिकंदरा योजना, आगरा। घर का अलावाः आवासीय मकान नंबर 93, सेक्टर -8, पंडित दीन कुल क्षेत्रफल माप 41.31 वर्गमीटर / 49.41 ) 24 70 2021	आईडी एवं पासवर्ड का प्रयोग कर सकता है।	যাঁ <b>জাৰা লীছাললা ৰীঁ</b> ফ 🖳 punjal	b national bank	• 'स्वदेश लौटे
अलावाः आवासीय मकान नंबर 93, सेक्टर –8, पंडित दीन कुल क्षेत्रफल माप 41.31 वर्गमीटर /49.41 <sup>3705.05.021</sup> दयाल उपाध्याय पुरम, सिकंदरा योजना, आगरा, श्री लक्ष्मण वर्गगज, साइट की चौहद्दी उत्तर – मकान नं, 4) 31,72,281 / – (रुपये इकतीस लाख	10) ई—वोटिंग से जुड़ी किसी भी पूछताछ या शिकायत के लिए सदस्यगण www.evoing.nsdl.com के डाउनलोड सैक्शन पर उपलब्ध		and the second	
सिंह यहाँ भी: 42 135 मथरा रोड बिलोच परा आगरा लिबार्टी 94 / 8 पर्व – मकान नं 83 और 84 दक्षिण– बहत्तर हजार दो सौ इक्यासी मात्र) देय और	शेयरधारकों के लिए अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू) और	सर्कित सारता केंद्र: नोएडा, पहत्ती मंजिल, SH १२, गम्मा शोपिंग काम्प्लेक्स, ग कव्या सुचना (अवल संपत्ति/चल संपत्ति हेतू)		सीरियाई शरणा
शू के सामने, आगरा-282002 ऋण खाता संख्याः PR00383055 और PR00398050 सडक।	शेयरधारकों के लिए ई—वोटिंग यूजर मैनुअल का अवलोकन कर सकते हैं या टोल फ्री नं. 1800 1020 990 एवं 1800 22 44 30	एतद्वारा वित्तियो आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवम पुनर्निमाण तथा प्रवर्तन (प्रतिभूति) हित अधिनियम	र, २००२ के तहत तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम,	
स्वीकृत ऋण राशिः रुपये 18,40,000 / - (अठारह लाख रुपये बंधक का नामः श्री लक्ष्मण सिंह पुत्र श्री राम	पर कॉल कर सकते हैं या सुश्री सोनी सिंह, सहायक प्रबंधक,	२००२ के नियम ८ एवम ९ के साथ पठित धारा १३(४) एवम १३(१२) के तहत प्रदत शक्तियों के उपये	गेग में अधिकृत प्राधिकारी नें कथित सूचना की तिथि	पर अत्याचार र
जार पालास हजार गांव)	एनएसडीएल, ट्रेड वर्ल्ड, 'ए' विंग, बौथा तल, कमला मिल्स	से ६० दिनों के भीतर राशि का पुनर्भुगतान करने के लिए कहते हुए मांग सूचना जारी की थी। कर्जदार तथा जमानतियों द्वारा राशि के पुनर्भुगतान में असफल होने के कारण नीचे वर्णित कर्जदारों	तथा जगावतियों को उथा का जाया य को घटना की	बेरूत, 7 सितंबर (एपी)।
. श्री नरेश कुमार पुत्र श्री अमर सिंह व श्रीमती विमला देवी प्लॉट नंबर 75, खसरा नंबर – 645 1) फिनिक्स ट्रस्ट वित्तीय वर्ष 19–10 पत्नी श्री अमर सिंह एवं श्री. उमेश सिंह पुत्र श्री अमर सिंह एवं की संपूत्ति, क्षेत्रफल 128.07 वर्ग 2) 05.03.2021	कम्पाउंड, सेनापति बापट मार्ग, लोअर परेल, मुम्बई-400 103 से सम्पर्क कर सकते हैं या evoting@nsdl.co.in पर अनुरोध भेज	कर्णदार तथा अमानातथा द्वारा साथ के पुनमुगतान में असफल होने के कारण नाथ धायत कर्णदास जाती है की अधोहस्ताक्षरी ने कथित नियमां के नियम ८ एवम ९ के साथ पठित कथित अधिनिय	म की धारा १३(४) के तहत उसे प्रदत शक्तियों के	
श्री. पीतम सिंह पत्नी श्री अमर सिंह सभी यहाँ परः प्लॉट नं. मीटर गीता पुरम कॉलोनी, बोडला, 3) 03.09.2021 75, गीता पुरम कॉलोनी, नई अबती गैंडा नगर, मौजा–बोड़ला, बॉम्बे आूगरा में स्थितः पूर्व–प्लॉट् नं. 74, 4) रु. 64,24,957.32 / – (चौंसठ लाख चौबीस	सकते हैं।	उपभोग में नीचे वर्णित संपतियो पर कब्जा कर लिया है।		'एमनेस्टी इंटरनेशनल
बाजान के गाम बोदला भागना 282007 सभी गटा गर वॉफी पश्चिम प्लीट नंबर 6 खीम चंद टिजान में से सलावन भीन वतीस मैसे मात्र	11) भौतिक प्रारूप में शेयर धारण करने वाले सदस्यगण जिन्होंने जाया के स्वत्य के बार्य के जाया के स्वत्य की जाया के स्वत्य की जाया के स्वत्य की स्वत्य की स्वत्य की स्वत्य की स	विशेष रूप से कर्जदारों तथा जमानतियों तथा जन सामान्य को एतद्वारा संपतियों से किसी प्रकार क संपतियों के साथ किसी प्रकार का सव्यवहार राशियों तथा उस पर ब्याज के लिए पंजाब नेशनल बैंक	का सव्यवहार न करने की बेतावनी दी जाती है और	रपट के अनुसार स्वदेश
बाजार था	अपना ई—मेल आईढी कंपनी के पास पंजीकृत नहीं कराया है और जो 27वीं एजीएम की सूचना तथा वर्ष 2020—21 के लिए वार्षिक	the second state of the se	Carlo	सीरियाई शरणार्थियों के
स्वीकृत कुल ऋण राशिः रु. 33,39,000 / – (रूपये तेंतीस लाख देवी प्रत्नी भी अपन जिंद ।	रिपोर्ट और/या ईवोटिंग सहित वीसी/ओएवीएम सुविधा के माध्यम		सूचना १३(४) में देव राशि मांग सूचना की तिथि/	सारपाइ रारणायपा पर सुरक्षा बलों ने या तो हिर
आर उन्तालास हजार मात्र)	से 27वीं एजीएम में शामिल डोने के लॉगइन विवरण प्राप्त करने के इच्छक हैं, वे कंपनी के पास अपना ई—मेल पता पंजीकत करा	का नाम	तथा बकाया राशि: कबजा करने की तिथि	लिया या वे गायब हो ग
. श्री अजय कुमार पुत्र श्री सोवरन सिंह एवं श्री राकेश संपत्ति जिसमें, प्लॉट खसरा नंबर—112, 1) फिनिक्स ट्रस्ट वित्तीय वर्ष 19—10 कुमार पुत्र श्री सोवरन सिंह एवं श्री. सोवरन सिंह पुत्र श्री. 124.69 वर्ग मीटर मापक्षेत्र। खवास पुरा, २) 26.03.2021	सकते हैं। इस प्रयोजन के लिए उन्हें फोलियो नम्बर, पूरा पता और	<ol> <li>भ्री रविंदर कुमार आवासीय फ्लैट संख्या एफ-1, प्रथम तल, (बिना छत</li> </ol>	रुपया ७, ८२,२३५,१३ ०७.०६,२०२१/	यातना दी जा रही है। इर
रोंकर लाल एवं श्रीमती रिंकी कुमारी पत्नी श्री राकेश मौजा कच्ची पुरा, आगरा में स्थित है। 3) 03.09.2021 कुमार सभी यहाँ परः खवासपुरा, जगनेर रोड, दुर्गा मंदिर के पूर्व– प्रेम सिंह और ज्योति का घर , 4) रु.35,46,586 / – (पैंतीस लाख छियालीस	पंजीकृत किये जाने वाले ई—मेल पते के साथ पैन कार्ड की स्व—सत्यापित प्रति तथा सदस्य के पंजीकृत पते के समर्थन में	पिता प्रकाश चंद अधिकार), एचआईजी, प्लॉट नंबर 1/25, वैशाली, गाजियाबाद		
पाँस, आगरा–282001 सभी यहां पर भीः खवासपुरा, खसरा पश्चिम– 12 फिट रोड, उत्तर– भूमि, हजार पांच सौ छियासी रुपये मात्र) देय और	अन्य कोई दस्तावेज सहित अनुरोध पत्र की हस्ताक्षरित स्कैन	(उ.प), कुल कवर क्षेत्र 89.18 वर्ग मीटर, दिनांक 09/06/2009, को पुस्तक संख्या-1 जिल्द संख्या-13195, पृष्ठ	खच अलग स)	होता है कि देश के किसी
नं. 112, मौजा काचीपुरा, आगरा–282001, <b>श्री अजय कुमार</b> दक्षिण–शंकर लाल का मकान। 22.03.2021 से लागू ब्याज के साथ, यहाँ भी: खेरिया मोड़, जिंग क्रॉसिंग, आगरा–282001। <b>बंधक का नामः</b> श्री अजय कुमार पुत्र श्री 23.03.2021 तक देय, जब तक कि भुगतान	कॉपी कंपनी के ईमेल cs@orosil.com पर भेज सकते हैं। डिमेट प्रारूप में शेयर धारण करने वाले सदस्यों से अनुरोध है कि वे	संख्या-156, क्रमांक संख्या-13164, पर उप निबंधक –		में लौटना अब भी सुरक्षि
ऋण खाता संख्याः PR00390561 सोवरन सिंह एवं श्री राकेश कुमार पुत्र पूर्ण नहीं हो जाता।	ब्रोक्स न रायर वारण करने पाल संपर्स्या स अनुसाव हा के प केवल अपने डिपॉजिटरी प्रतिमागी के पास अपना ई—मेल पता	(चतुर्थ) कार्यालय गाज़ियाबाद के पास श्री रविंदर कुमार पुत्र		'यू आर गोविंग टू यॉर उ
स्वीकृत कुल ऋण राशिः रु. 23,00,000 /— (रुपये तेईस श्री सोवरान सिंह।	पंजीकृत कराएं।	प्रकाश चंद के नाम पंजीकृत है।		अपनी मौत के लिए जा
अगि अमीन खान पत्र श्री नजीर खान एवं श्रीमती जैतन संपत्ति प्लॉट नं 20 नगर निगम नं 1) फिनिक्स टस्ट वित्तीय वर्ष 19–10	12) वार्षिक रिपोर्ट के साथ एजीएम की सूचना कपनी की वेबसाइट www.orosil.com और एनएसडीएल की वेबसाइट https://	2. श्रीमती अमिता कमर्शियल वैभ्वर संख्या – 10. भूतल, (बिना छत अधिकार),	रुपया २१,८६,७०९ ०७.०६.२०२१/	शीर्षक वाली रपट् में मा
5. श्री अमीन खान पुत्र श्री नजीर खान एवं श्रीमती जैतुन बेगम पत्नी श्री नजीर खान एवं मो. शौकिन खान पुत्र श्री नजीर खान एवं मो. छोटू खान पुत्र श्री नजीर खान सभी यहाँ पर: 26, आजम पारा, आगरा–282010, सभी यहाँ भी: केएच–232, संपत्ति नं. 20, नगरा अल्बटिया रोड, आजम पाडा, आगरा– 282010	www.evoting.nsdi.com/ पर भी उपलब्ध होगी।	अरोरा पति वीरेंद्र नंदा टॉवर, कीशाम्बी गाज़ियाबाद (उ.प), कुल क्षेत्र 46.80 वर्ग	(आगे का ब्याज, लागत, ०४.०९.२०२१	समूह ने 2017 से 2021
यहाँ पर: 26, आजम पारा, आगरा–282010, सभी यहाँ भी: पारा, लोहामंडी वार्ड, नगला 4) रु. 25,86,207 / – (पच्चीस लाख छियासी	13) ई—वोटिंग प्रक्रिया को निष्पक्ष एवं पारदर्शी तरीके से आयोजित		खर्च अलग से)	सीरियाई खुफिया अधिक
केएच–232, संपत्ति न. 20, नगला अल्बटिया रोड, आजम पाडा, आगरा– 282010   जगरा– 282010   जगरा– 282010   जगरा– 282010	कराने के लिए पर्यवेक्षण हेतु सुत्री नवनीत कौर, पेशेवर कंपनी सचिव को पर्यवेक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है।	श्री वीरेंद्र अरोरा पिता   27.03.2019 को पुस्तक संख्या -1, जिल्द संख्या-27653, पृष्ट हंसराज उतरेजा संख्या-1-58, क्रमांक संख्या-5157 पर उप निबंधक-(चतुर्थ)		देश लौटे 66 लोगों पर अ
त्रिण खाता संख्याः PR00281609 और PR00373025 स्वीकृत कुल ऋण राशिः रु.16,50,000 / – (रुपये सोलह श्री नज़ीर।	सामय का प्रयथशक के रूप मान्युक्ता किया गया है। 4) 26वीं एजीएम के प्रयोजन हेतू सदस्यों का रजिस्टर और शेयर	कार्यातव गाजियाबाद में पंजीकृत है।		जानकारी दी, जिसमें 13
लेखि आरे पंचास हजारे मात्र)।	ट्रांसफर बुक बुधवार, 22 सितम्बर, 2021 से बुधवार, 29 सितम्बर,			शामिल हैं। इनमें से पांच
, श्री अतर सिंह पुत्र श्री विहारी लाल एवं श्री. कैलाश चंद पुत्र श्री अतर   दुकान संख्या –21, बेसमेंट,   1) फिनिक्स ट्रस्ट वित्तीय वर्ष 19–10 सिंह एवं श्रीमती शकुंतला देवी पत्नी श्री अतर सिंह सभी यहाँ पर:   मापक्षेत्र 40.06 वर्गमीटर की   2) 06.04.2021	2021 तक (दोनों दिवस शामिल) बंद रहेंगे।		रुपया १६३,८९,८८७ ०७.०६,२०२१/ (आगे का ब्याज, लागत, ०४,०९,२०२१	हिरासत में मौत भी हो
12 / 4 क्य हनमान नगर यमना बिज आगरा-282004 इसके अलावा सभी संपत्ति जो शिव पिया 3 03 09 2021	पर्यवेक्षण की रिपोर्ट के साथ एजीएम में वोटिंग का परिणाम सांविधिक समय-सीमा के अनुसार घोषित किया जाएगा और इसे कंपनी की वेबसाइट		(जान का ब्याज, लानत, जह.०९,२०२२) खर्च अलग से)	जबकि लापता 17 लोगों व
<b>यहाँ भीः</b> 21 गाटा नं. 2475 राम बाग, शिव प्रिया कॉम्प्लेक्स आगरा – कॉम्प्लेक्स, ट्रांस यमुना 4)रुपये 41,97,734 / – (इक्तालीस लाख 282006, <b>इसके अलावाः</b> शॉप नंबर –21, बेसमेंट, शिव प्रिया कॉम्प्लेक्स, ट्रांस कॉलोनी, आगरा में स्थित सत्तानवे हजार सात सौ चौंतीस रुपये	www.orosil.com, स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट www.bseindia.com और	पिता सतपाल सिंह को बही न०-1, जिल्द संख्या- 6750, पेज न०-301-340,	property of The Art The State	कोई पता नहीं है। रपट में
यमुना कॉलोनी– आगरा – 282006 में स्थित है। है। मात्र) देय और 31.03.2021 से लाग् ब्याज	एनएसडीएल वेक्साइट www.evoting.nsdl.com पर भी प्रकाशित किया जाएगा।	अीमती सरोज क्रमांक 4977 को उप निबंधक-(तृतीय) सदर कार्यालय		के उन दावों का खंडन
त्रहण खाता संख्याः PR00440910 स्वीकृत ऋण राशिः रु. 21,80,000 / − (रुपये इक्कीस लाख और अस्सी सिंह। के साथ, 01.04.2021 तक देय, जब तक कि भूगतान पूर्ण नहीं हो जाता।	कृते ओरोसिल स्मिथ्स इंडिया लिमिटेड इस्ता/—	सत्यपाल गीतमबुद्ध नगर में पंजीकृत है।		है, जिन्होंने सीरिया के व
हजार मात्र)।	बी.के. नक्तला	दिनांक ०७.०९.२०२१		को अब वापस लौटने
सी भी प्रश्न के लिए कृपया श्री से संपर्क करें—श्री सोमेश सुंदरियाल (+91 9910563402), श्री विवेक कनौजिया (+91 9205177091) और श्री प्रशांत गौतम (+91 9643615436) थानः आगरा, दिनांकः 03.09.2021 अधिकृत अधिकारीः फिनिक्स आर्क प्राइवेट लिमिटेड के लिए (ट्रस्ट वित्तीय वर्ष 19—10)	स्थानः नोएडा (प्रबंध निदेशक) तिथिः 07 सितम्बर, 2021 DIN: 00003629	स्थान गौतमबुद्ध नगर	(अधिकृत अधिकारी)	
पान जानरा, ग्रिनाक एउ.एड.ट०२। जावकृत जावकाराः कामपत्त जाक प्राह्म्यट लिगिटरु क लिए (ट्रस्ट वित्तीय वर्ष 19–10)	तिथिः 07 सितम्बर, 2021 DIN: 00003629			सुरक्षित बताया है।

कॉपोरेट कार्यालयः ए—89, सेक्टर—2, नोएडा (यू.पी.) 201301, मारत फोन नं0.: +91-0120-4125476, ईमेल आईडी: info@orosil.com, वेक्साइट: www.orosil.com

### 27वीं वार्षिक आम बैठक, रिमोट ई-वोटिंग जानकारी एवं बुक बंदी की सूचना

एतदद्वारा सुचित किया जाता है किः


1) कंपनी अधिनियम, 2013 के लागू प्राक्धानों और उसके अधीन बनाए गए नियमों के साथ पठित कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा जारी किये गये परिपत्र संख्या 14/2020, 17/2020, 20/2020 और 02/2021 क्रमशः दिनांक 8 अप्रैल, 2020, 13 अप्रैल, 2020, 5 मई, 2020 और 13 जनवरी, 2021 (''एमसीए परिपत्र'') तथा सेबी (सचीयन दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के साथ पठित भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड द्वारा जारी किया गया परिपत्र संख्या सेबी/एवओ/सीएफडी/सीएमडी1/ सीआईआर/पी/2020/79 दिनांक 12 मई, 2020 और सेबी/एवओ/सीएफडी/सीएमडी2/ सीआईआर/पी/2021/11 दिनांक 15 जनवरी, 2021 (''सेबी परिपत्र'') के अनुपालन में एजीएम की सूचना में निर्धारित किये गये सामान्य एवं विशेष व्यवसाय के निष्पादन के लिए आम स्थल पर सदस्यों की शारीरिक उपस्थिति के बिना ओरोसिल रिमध्स इंडिया लिमिटेड ("कंपनी") की 27वीं वार्षिक आम बैठक ("एजीएम") बुधवार, 29 सितम्बर, 2021 को दोप. 12.00 बजे (आईएसटी) में विडियो कॉन्फ्रेंसिंग (''वीसी''')/अन्य ऑडियो विडियो माध्यमों (''ओएवीएम'') के द्वारा आयोजित की जाएगी।

एमसीए परिपत्रों एवं सेबी परिपत्र के संदर्भ में 27वीं एजीएम की सूचना और 31 मार्च, 2021 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों से शामिल वर्ष 2020-21 के लिए वार्षिक रिपोर्ट 07 सितम्बर, 2021 को केवल उन सदस्यों को ई-मेल के माध्यम से भेज दी गई है जिनके ई-मेल पते कंपनी/दिपॉजिटरी प्रतिमागी के पास पंजीकृत हैं। सदस्यों को 27वीं एजीएम की सूचना और वार्षिक रिपोर्ट की भौतिक प्रतियां भेजने की आवश्यकता एमसीए परिपत्रों एवं सेनी परिपत्र के माध्यम से हटा दी गई है।

 सदस्यगण एजीएम की सूचना में दिये गये निर्देशों का पालन करके https://www.evoting.nsdl.com पर वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में शामिल होने के लिए सक्षम होंगे। सदस्यगण बैठक से 30 मिनट पूर्व शामिल हो सकते हैं और बैठक की पूरी प्रक्रिया में माग ले सकते हैं। वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भागीदारी की सुविधा पहले आओ पहले पाओ आधार पर 1,000 सदस्यों के लिए उपलब्ध होगी।

4) कट—ऑफ तिथि अर्थात 22 सितम्बर, 2021 को या तो मौतिक प्रारूप या डिमेटिरियलाइच्छ प्रारूप में शेयर धारण करने वाले सदस्यगण नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड ("एनएसडीएल") की रिमोट ई--वोटिंग/ई--वोटिंग सुविधा के माध्यम से एजीएम की सूचना में निर्धारित सामान्य एवं विशेष व्यवसाय पर अपना वोट इलेक्ट्रॉनिकली दे सकते हैं। सभी सदस्यों को सुचित किया जाता है कि:

- 1) एजीएम की सूचना में निर्धारित सामान्य एवं विशेष व्यवसाय का
- निष्पादन इलेक्टॉनिक पद्धति से बोटिंग द्वारा किया जा सकता है
- 2) रिमोट ई-वोटिंग रविवार, 26 सितम्बर, 2021 को प्रातः 9:00 बजे (आईएसटी) में प्रारंभ होगी;
- 3) रिमोट ई-वोटिंग मंगलवार, 28 सितम्बर, 2021 को साथं 5:00 बजे (आईएसटी) में समाप्त होगी;
- 4) उपरोक्त कथित तिथि एवं समय के बाद एनएसडीएल द्वारा रिमोट
- ई-वोटिंग की सुविधा हटा ली जाएगी। कथित तिथि एवं समय के बाद रिमोट ई-वोटिंग की अनुमति नहीं दी जाएगी और सदस्य द्वारा प्रस्ताव पर एक बार वोट देने के बाद उसे बाद में बदलने की अनुमति नहीं दी जाएगी;
- 5) रिमोट ई-वोटिंग / एजीएम के दौरान ई-वोटिंग के माध्यम से वोट देने के लिए योग्यता निर्धारण हेतु कट-ऑफ तिथि 22 सितम्बर 2021 8;
- ह) ऐसा व्यक्ति जिसका नाम कट-ऑफ तिथि अर्थात् 22 सितम्बर, 2021 को सदस्यों के रजिस्टर या डिपॉजिटरीज द्वारा तैयार किये गये लामार्थी स्वामियों के रजिस्टर में दर्ज होगा, केवल वही रिमोट ई-वोटिंग/एजीएम के दौरान ई-वोटिंग की सुविधा का लाभ चठाने के हकदार होंगे



## बर्मिंधम (ब्रिटेन), ७ सितंबर (द कन्वरसेशन)।

अफगानिस्तान की सत्ता पर अप्रत्याशित रूप से तालिबान के काबिज होने के बाद नए सिरे से गृह युद्ध छिड़ने की आशंका जताई जाने लगी है। बहरहाल, अभी तक ये खबरें गुमराह करने वाली साबित हुई हैं। फिलहाल अफगानिस्तान में कोई सरकार नहीं है, लिहाजा इस समय सैद्धांतिक रूप से गृहयुद्ध छिड़ने की आशंका कम नजर आ रही है।


तालिबान के सत्ता पर काबिज होने के बाद उसकी राह आसान नजर नहीं आ रही। पूर्व सिपहसालारों की चुनौती तालिबान का सिरदर्द बढ़ा सकती है। 2001 में केवल अमेरिका समर्थित नॉदर्न अलायंस ही नहीं बल्कि अन्य स्थानीय कमांडर और राजनीतिक नेता भी काबुल से तालिबान को हटा कर उनके अधिकार को चुनौती दे रहे थे। 2021 में तालिबान स्थानीय समूहों को साथ आने या तटस्थ रहने के लिए राजी करके सत्ता में आया।

अब जब तालिबान एक सरकार और शासन व्यवस्था स्थापित करने की कोशिश कर रहा है, तो यह संभव है कि ये समूह तालिबान के मातहत रहने का विरोध कर सकते हैं। वे स्वायत्तता की कमी पर रोष प्रकट कर सकते हैं या काबुल में नई व्यवस्था के विरोध में राजनीतिक और आर्थिक लाभ देख सकते हैं। फिर भी इनमें से किसी भी समूह की तालिबान की तरह राष्ट्रीय पहुंच नहीं है। और 2001 के विपरीत, अफगानिस्तान में किसी बाहरी शक्ति का समर्थन भी उन्हें हासिल नहीं है। इसलिए अफगानिस्तान का निकट भविष्य अधर में है। तालिबान को वैधता मिलती है तो उसकी जमीन

के उसने ध्यान खींचा था। भले ही यह घातक संगठन है. लेकिन अभी इसे तालिबान की सत्ता के लिए खतरा नहीं माना जा रहा है। इसके पास चार-पांच हजार लड़ाके हैं और यह अब भी पूर्वी अफगानिस्तान में स्थानीय गुट है, जो मुख्य रूप से पाकिस्तान से लगी सीमा पर नांगहार और कुनार प्रांतों में सक्रिय है।

खबरें मिल रही हैं कि तालिबान ने अफगानिस्तान के उत्तर-पूर्व में पंजशीर घाटी को अपने नियंत्रण में ले लिया है। पंजशीर प्रांत की राजधानी बजारक में तालिबान के झंडे लगे होने की तस्वीरें भी सामने आई हैं। हालांकि, अभी इसकी पृष्टि नहीं हुई है। पंजशीर को मुख्य रूप से ताजिक प्रतिरोध के लिए जाना जाता है, जिसका नेतृत्व पूर्व प्रसिद्ध सिपहसालार अहमद शाह मसूद के बेटे अहमद मसूद और अपदस्थ सरकार में उपराष्ट्रपति रहे अमरुल्ला सालेह कर रहे हैं। तालिबान के पुराने दुश्मन गुलबुद्दीन हिकमतयार अब भी तालिबान के लिए चुनौती बने हुए हैं। हिकमतयार ने 1980 के दशक में हिज़्ब−ए इस्लामी की स्थापना की, जो सोवियत संघ के खिलाफ लडाई में पाकिस्तान के माध्यम से सीआइए के समर्थन से मजबूत हुआ। 1990 के दशक में सबसे क्रूर मिलिशिया नेताओं में से एक माने जाने वाले हिकमतयार 1996 में तालिबान के सत्ता में आने से पहले कछ समय के लिए प्रधानमंत्री रहे।

साल 2001 में तालिबान के सत्ता से हटने के बाद हिकमतयार पाकिस्तान भाग गए। उन्होंने अपनी सेना का इस्तेमाल करजई सरकार और अंतरराष्ट्रीय गठबंधन के खिलाफ किया। साल 2016 में अफगानिस्तान सरकार के नेस्तान मंत्री न तैयार सक्षम ोई शर्त



www.readwhere.com

2